



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

205 लीटर अवैध कच्ची शराब व भट्टी सहित 19 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान के अनुपालन के क्रम में थाना खैराबाद, थानगांव, मिश्रिख, लहरपुर, रेउसा, कमलापुर, संदना पुलिस द्वारा अभियान चलाते हुए 19 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए कुल 205 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी विवरण निम्नवत् है-

- थाना खैराबाद द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से कुल 20 ली0 शराब बरामद-** 1.अमित कुमार पुत्र कमलेश 2.सुमित पुत्र कमलेश नि0 कैथाभारी थाना खैराबाद के कब्जे से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 562/20,563/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना थानगांव द्वारा 02 अभियुक्त के कब्जे से 40 ली0 शराब बरामद-**1.हेमराज पुत्र रंगीलाल 2. अवधराम पुत्र रंगीलाल निवासी ग्राम फुलवारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर में प्रत्येक के कब्जे से 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 418/20, 419/20धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना मिश्रिख द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 10 ली0 शराब बरामद-** जगदीश पासी पुत्र मैकू निवासी करमसेपुर जनपद सीतापुर के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 564/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना लहरपुर द्वारा 04 अभियुक्त के कब्जे से कुल 40 ली0 शराब बरामद-** 1.कमलेश कुमार पुत्र स्व0 मैकू नि0 नबीनगर 2.राजबहादुर उर्फ भवना पुत्र कल्लू 3.रामदयाल 4.दीपू पुत्र तौला नि0 गण कुली मोहम्मदपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियोग अंतर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना रेउसा द्वारा 08 अभियुक्त के कब्जे से कुल 60 ली0 शराब, भट्टी बरामद-** 1.विनोद पुत्र विश्राम नि0 कोडरा 2.मोतीलाल पुत्र गोबरे नि0 कोडरी 3.शिवबालक पुत्र छोडन नि0 जालिमनगर 4.ललित दीक्षित पुत्र रामनरेश नि0 बेदौरा में प्रत्येक के कब्जे से 10-10 लीटर कुल 40 लीटर व

5.दिलेराम पुत्र त्रिभुवन 6.शिशुकुमार पुत्र कुंदन 7.सहजराम पुत्र रामपाल 8.सुनील पुत्र कुंदन नि0गण लोनियनपुरवा मजरा मानपुर सिकरी थाना रेउसा जनपद सीतापुर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व भट्टी बरामद कर क्रमशः मु0अ0सं0 403/20,404/20,405/20,406/20 धारा 60 आब0 अधि0 व मु0अ0सं0 407/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

6. थाना कमलापुर द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से कुल 20 ली0 शराब बरामद- केशव उर्फ रामकिशुन निवासी ग्राम ललवा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 429/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

7. थाना संदना द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से कुल 15 ली0 शराब बरामद- श्रवण पुत्र रामनाथ नि0 नई गढी मजरा धरौली थाना संदना जनपद सीतापुर के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 415/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।